

धारा 143(1) के तहत सूचना



आयकर केन्द्र
CENTRALIZED PROCESSING CENTER
INCOME TAX DEPARTMENT

नाम : संगीता पाल
पता : भलोबसा अपार्टमेंट 127 दूम दूम पार्क, 4ठ फ़्लोर फ़्लैट नं. 4सी,
कोलकता, बंगुर एंटेन्यु एस.ओ. लेक ट्राउन, नोर्थ 24 पर्गनस वेंस्ट
बंगाल 700055 इंडिया
फ़ोन: 91-9432146914

स्थायी खाता संख्या : ASUPP6160C | निर्धारण वर्ष : 2023-24 | पावती सं. : 555661790190723 | पत्र संदर्भ संख्या : CPC/2324/A1/366261570

निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए आपके केस में प्रतिदाय निर्धारित हुआ है

* प्रतिदाय की राशि: ₹ 6,500

प्रतिदाय अनुक्रम सं.: 9311988666

ITR फ़ॉर्म का प्रकार
ITR1 मूल

फाइलिंग की दिनांक
19/07/2023

सूचना आदेश की दिनांक
01/08/2023

नियत दिनांक
31/07/2023

विस्तारित नियत दिनांक
31/07/2023

स्थिति
Individual

आवासीय स्थिति
Resident

आयकर विवरणी का विवरण

क्र.सं.	विवरण	रिपोर्टिंग शीर्ष	राशि (₹ में) करदाता द्वारा प्रदान किया गया	धारा 143(1) की गणना के अनुसार
01	कराधान विकल्प	115BAC का विकल्प चुना	No	No
02	आय का विवरण	कुल आय	2,43,500	2,43,500
03	कर का विवरण	राहत के बाद कर दायित्व	0	0
04	ब्याज और देय शुल्क	कुल ब्याज और शुल्क (234A, 234B, 234C और 234F)	0	0
05	पूर्व संदत्त कर	कुल भुगतान किया गया कर (अग्रिम कर, टी डी एस, टी सी एस, स्व निर्धारित कर)	6,337	6,337
06	प्रतिदाय का विवरण	प्रतिदाय राशि (244A के ब्याज सहित)	6,340	6,500

* नोट: सूचना प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर रिफंड आपके बैंक खाते में जमा होने की उम्मीद है। कृपया ध्यान दें कि इस तरह का क्रेडिट आपके बैंक खाते के पूर्व-सत्यापन, धनवापसी के लिए नामांकित और बैंक खाते से जुड़े पैन के अधीन है।

* कृपया नीचे रिफंड नोट देखें

एन साईराज, आई.आर.एस
उप आयकर निदेशक,
सी.पी.सी., बेंगलुरु

[Click here for English version](#)

धारा 143(1) के तहत सूचना



आयकर केन्द्र
CENTRALIZED PROCESSING CENTER
INCOME TAX DEPARTMENT

नाम : संगीता पाल

स्थायी खाता संख्या : ASUPP6160C

निर्धारण वर्ष : 2023-24

पावती सं.

: 555661790190723

पत्र संदर्भ संख्या : CPC/2324/A1/366261570

क्र.सं.	विवरण	रिपोर्टिंग शीर्ष	राशि (₹ में)	
			करदाता द्वारा प्रदान किया गया	धारा 143(1) की गणना के अनुसार
01	वेतन	(i) सकल वेतन (ia+ib+ic+id+ie)	3,52,832	3,52,832
		(a) धारा 17(1) के अनुसार वेतन	3,52,832	3,52,832
		(b) धारा 17 (2) के अनुसार अनुलब्धियों का मूल्य	0	0
		(c) धारा 17 (3) के अनुसार वेतन के बदले लाभ	0	0
		(d) धारा 89A के तहत अधिसूचित देश में बनाए गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	0	0
		(e) धारा 89A के तहत अधिसूचित देश के अलावा किसी अन्य देश में बनाए गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	0	0
		(ii) कम : धारा 10 के तहत छूट की सीमा	0	0
		(iia) कम : धारा 89A के तहत कराधान से राहत के लिए दावा की गई आय	0	0
		(iii) कुल वेतन (i-ii-ia)	3,52,832	3,52,832
		(iv) धारा 16 के तहत कटौती (iva + ivb + ivc)	50,000	50,000
		(a) धारा 16(ia) के तहत मानक कटौती	50,000	50,000
		(b) धारा 16(ii) के तहत मनोरंजन भत्ता	0	0
		(c) धारा 16(iii) के तहत व्यावसायिक कर	0	0
		(v) 'वेतन' शीर्ष के अंतर्गत प्रभार्य आय (iii-iv)	3,02,832	3,02,832
02	गृह संपत्ति	गृह संपत्ति का प्रकार		
		(i) वर्ष के दौरान सकल किराये का प्राप्त/प्राप्य/देय मूल्य	0	0
		(ii) स्थानीय प्राधिकरणों को भुगतान किया गया कर	0	0
		(iii) वार्षिक मूल्य (i-ii)	0	0
		(iv) वार्षिक मूल्य का 30%	0	0
		(v) उधार ली गई पूंजी पर देय ब्याज	0	0
		(vi) वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया/अप्राप्त किराये 30% कम	0	0
		(vii) गृह संपत्ति के तहत प्रभार्य आय [(iii - iv - v) + vi]	0	0
03	अन्य स्रोत	अन्य स्रोतों से आय (नीचे दिए गए मदों का योग)	2,630	2,630
		(i) बचत खाते से ब्याज	1,109	1,109
		(ii) जमा (बैंक/झाकघर/सहकारी समिति) से ब्याज	1,521	1,521
04		कुल सकल आय [4= (1+2+3)]	3,05,462	3,05,462
05	अध्याय VIA के तहत कटौती	कटौती		
		80C (जीवन बीमा प्रीमियम, आस्थगित वार्षिकी, भविष्य निधि (a) में अंशदान, कुछ इक्विटी शेयरों या डिबेंचरों की सदस्यता के संबंध में कटौती)	60,854	60,854
		(b) 80TTA (बचत खाते में जमा पर ब्याज के संबंध में कटौती)	1,109	1,109
		अध्याय VI-A के तहत कुल कटौती (उम्मीर दिए गए मदों का योग) (जैसा कि रिटर्न में दावा की गई राशि तक ही सीमित है)	61,963	61,963
06		कटौती के बाद कुल आय [6=(4-5)]	2,43,500	2,43,500
07	कर का विवरण	कुल आय पर देय कर	0	0
08		धारा 87A के तहत छूट	0	0
09		छूट के बाद देय कर [9=(7-8)]	0	0
10		9 पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर, 4% की दर से	0	0
11		कर राहत से पहले सकल कर देयता (कुल कर और उपकर) [11=(9+10)]	0	0

धारा 143(1) के तहत सूचना



आयकर केन्द्र
CENTRALIZED PROCESSING CENTER
INCOME TAX DEPARTMENT

नाम : संगीता पाल

स्थायी खाता संख्या : ASUPP6160C

निर्धारण वर्ष : 2023-24

पावती सं.

: 555661790190723

पत्र संदर्भ संख्या : CPC/2324/A1/366261570

क्र.सं.	विवरण	रिपोर्टिंग शीर्ष	राशि (₹ में)	
			करदाता द्वारा प्रदान किया गया	धारा 143(1) की गणना के अनुसार
12	कर राहत	धारा 89 के तहत राहत	0	0
13	कुल आयकर देयता	राहत के बाद शेष कर [13=(11-12)]	0	0
14	ब्याज और देय शुल्क	(a) धारा 234A के तहत ब्याज	0	0
		(b) धारा 234B के तहत ब्याज	0	0
		(c) धारा 234C के तहत ब्याज	0	0
		(d) धारा 234F के तहत शुल्क	0	0
		(e) कुल ब्याज और शुल्क देय [14e=(14(a)+14(b)+14(c)+14(d))]	0	0
15		कुल आयकर देय [15=(13+14e)]	0	0
16	पूर्व संदत्त कर	(a) अग्रिम कर	0	0
		(b) टी डी एस	6,337	6,337
		(c) टी सी एस	0	0
		(d) स्वतः निर्धारित कर	0	0
		(e) भुगतान किया गया कुल कर [16e = {16(a)+16(b)+16(c)+16(d)}]	6,337	6,337
17	प्रतिदाय	प्रतिदाय राशि [17=(16e-15)]	6,340	6,337
18		करदाता को विलंब श्रेय (महीनों में)	N/A	0
19		धारा 244A के तहत प्रतिदाय पर ब्याज (क्रम संख्या 18 पर विचार करने के बाद क्रम संख्या 17 के तहत प्रतिदाय राशि पर)	N/A	158
20		कुल आयकर प्रतिदाय [20=(17+19)]	N/A	6,495
21	कम: धारा 245(1) के तहत प्रक्रिया का पालन करने के बाद पिछले निर्धारण वर्ष (वर्षों) की मांग (मांगों) और धारा 220(2) के तहत देय ब्याज के खिलाफ समायोजित प्रतिदाय की राशि। (कृपया संलग्नक - बकाया कर मांग का विवरण देखें)			0
22	प्रतिदाय योग्य कुल राशि [22=(20-21)]			6,500


नाम : संगीता पाल

स्थायी खाता संख्या : ASUPP6160C | निर्धारण वर्ष : 2023-24 | पावती सं. : 555661790190723 | पत्र संदर्भ संख्या : CPC/2324/A1/366261570

**** प्रतिदाय नोट:**

- आपका पैन आधार के साथ लिंक न होने की वजह से यदि आपके पैन को निष्क्रिय के रूप में चिन्हित कर दिया गया है तो धारा 114AAA के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139AA के अनुसार, इस सूचना आदेश के अनुसार निर्धारित प्रतिदाय और धारा 244A के तहत ब्याज रोक कर रखा जाएगा। कृपया नीचे दिए गए पथ की सहायता से अपने आधार को पैन के साथ लिंक करें: <https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar>
ध्यान दें: यदि आपका पैन आपके आधार से पहले से ही लिंक है, तो उम्रर दी गयी जानकारी आपके लिए लागू नहीं होती।
- धारा 244A के तहत ब्याजसहित इस सूचना में निर्धारित धनवापसी, धारा 245(1) के तहत बकाया मांग (मांगों), यदि कोई हो, के समायोजन के अधीन है और शेष राशि की वापसी, यदि कोई हो, के प्रावधानों के अनुसार रोकी गई है। धारा 245(2), यदि लागू हो।
- आपके बैंक खाते में रिफंड क्रेडिट करने के लिए, आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने बैंक खाते को सत्यापित करने के बाद उसका नामांकन करना होगा। आप ई-फाइलिंग पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर लॉगइन करने के बाद 'मेरी प्रोफाइल' अनुभाग में जाकर अपने बैंक खाते को सत्यापित कर सकते हैं और फिर उसका नामांकन कर सकते हैं।
- आपके द्वारा नामांकित खाते में आपके रिफंड की राशि को रिफंड बैंकर, अर्थात भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) के माध्यम से रिफंड किया जाएगा। आमतौर पर नामांकित बैंक खाते में रिफंड की राशि क्रेडिट होने में 15 दिनों से अधिक का समय नहीं लगता है।
- आप ई-फाइलिंग पोर्टल (www.incometax.gov.in) में 'अपने रिफंड की स्थिति जानें' कार्यविधि पर, अपने रिफंड की स्थिति देख सकते हैं। यहाँ आपके रिफंड के लिए रिफंड बैंकर द्वारा शुरू की गयी रिफंड प्रक्रिया की विशिष्ट लेन-देन संदर्भ संख्या (यू.टी.आर.एन.) भी प्रदर्शित की जाएगी। अपने रिफंड की स्थिति जानने के लिए आप रिफंड बैंकर (एस.बी.आई.) हेल्पलाइन नंबर 18004259760 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
- यदि आपका रिफंड आपके द्वारा नामांकित बैंक खाते में 15 दिनों के भीतर क्रेडिट नहीं होता है, तो इसका कारण जानने के लिए उम्रर दिये गए यू.टी.आर.एन. के साथ अपनी बैंक शाखा को संपर्क करें। आपके नामांकित बैंक खाते में रिफंड राशि जमा न हो पाने के कई कारण हो सकते हैं जैसे खाता मौजूद नहीं होना, खाते में क्रेडिट फ्रीज़, अमान्य खाता संख्या, अवरुद्ध खाता, निष्क्रिय खाता, इत्यादि। कृपया अपनी बैंक शाखा द्वारा दी गई सलाह के अनुसार समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाएँ।
- कृपया आपके नामांकित बैंक खाते की समस्या हल होने के बाद ही ई-फाइलिंग पोर्टल पर रिफंड दोबारा जारी करने का अनुरोध जमा करें।
- यदि इस सूचना के किसी भी भाग में सुधार करने की आवश्यकता है, तो आप आयकर अधिनियम 1961 की धारा 154 के तहत सुधार हेतु अनुरोध कर सकते हैं।

To file a Rectification Request



Intimation u/s 143(1)



आयकर केन्द्र
CENTRALIZED PROCESSING CENTER
INCOME TAX DEPARTMENT

Name : SANGITA PAL
Address : Bhalobasa Apartment 127 Dum Dum Park, 4th Floor Flat No. 4C, Kolkata,
Bangur Avenue S.O Lake Town, NORTH 24 PARGANAS West Bengal
700055 INDIA
Ph : 91-9432146914

नाम : संगीता पाल
पता : भलोबसा अपार्टमेंट 127 दूम दूम पार्क, 4ठ फ़्लोर फ़्लैट नं. 4सी,
कोलकता, बंगुर एंवेन्यु एस.ओ लेक टाउन, नोर्थ 24 पर्गनस वेंस्ट
बंगाल 700055 इंडिया
फ़ोन: 91-9432146914

PAN : ASUPP6160C | AY : 2023-24 | Ack. No. : 555661790190723 | DIN : CPC/2324/A1/366261570

You have a Refund for A.Y. 2023-24

* Amount of Refund : ₹ 6,500

Refund Sequence No : 9311988666

ITR Form Type	Date of Filing	Intimation Order Date	Due Date
ITR1 Original	19/07/2023	01/08/2023	31/07/2023
Extended Due Date	Status	Residential status	
31/07/2023	Individual	Resident	

RETURN DETAILS

Sl.No.	Particulars	Reporting Heads	Amount in ₹	
			As provided by Taxpayer	As Computed u/s 143(1)
01	Taxation option	Opted for 115BAC	No	No
02	Income Details	Total Income	2,43,500	2,43,500
03	Tax Details	Tax Liability after relief	0	0
04	Interest and Fee Payable	Total Interest And Fee (234A, 234B, 234C & 234F)	0	0
05	Pre-paid Taxes	Total Taxes Paid (Advance Tax, TDS, TCS, Self Assessment Tax)	6,337	6,337
06	Refund Details	Refund Amount (Including 244A interest)	6,340	6,500

* Note: Refund is expected to be credited to your bank account within 15 days from the date of receipt of intimation. Kindly note that such credit is subject to your bank account being pre-validated, nominated for refund and PAN linked to the bank account.

** Please refer the Refund Notes below

N SAYIRAJ, I.R.S
Deputy Director of Income Tax,
CPC, Bengaluru

Intimation u/s 143(1)



आयकर केन्द्र
CENTRALIZED PROCESSING CENTER
INCOME TAX DEPARTMENT

Name : SANGITA PAL

PAN : ASUPP6160C

AY : 2023-24

Ack. No. : 555661790190723

DIN : CPC/2324/A1/366261570

Sl.No.	Particulars	Reporting Heads	Amount in ₹	
			As provided by Taxpayer	As Computed u/s 143(1)
01	SALARY	(i) Gross salary (ia+ib+ic+id+ie)	3,52,832	3,52,832
		(a) Salary as per section 17(1)	3,52,832	3,52,832
		(b) Value of perquisites as per section 17(2)	0	0
		(c) Profit in lieu of salary as per section 17(3)	0	0
		(d) Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A	0	0
		(e) Income from retirement benefit account maintained in a country other than notified country u/s 89A	0	0
		(ii) Less : Allowances to the extent exempt u/s 10	0	0
		(iia) Less: Income claimed for relief from taxation u/s 89A	0	0
		(iii) Net salary (i-ii-iia)	3,52,832	3,52,832
		(iv) Deduction u/s 16 (iva+ivb+ivc)	50,000	50,000
		(a) Standard deduction u/s 16 (ia)	50,000	50,000
		(b) Entertainment allowance u/s 16 (ii)	0	0
		(c) Professional tax u/s 16(iii)	0	0
		(v) Income chargeable under the head 'Salaries' (iii-iv)	3,02,832	3,02,832
02	HOUSE PROPERTY	Type of House Property		
		(i) Gross rent received/receivable/lettable value during the year	0	0
		(ii) Tax paid to local authorities	0	0
		(iii) Annual value (i-ii)	0	0
		(iv) 30% of annual value	0	0
		(v) Interest payable on borrowed capital	0	0
		(vi) Arrears/ Unrealized rent received during the year less 30%	0	0
		(vii) Income chargeable under the head 'House Property' [(iii-iv-v)+vi]	0	0
03	OTHER SOURCES	Income from other sources (sum of the items below)	2,630	2,630
		(i) Interest from Savings Account	1,109	1,109
		(ii) Interest from Deposit(Bank/Post Office/Cooperative Society)	1,521	1,521
04		Gross Total Income [4=(1+2+3)]	3,05,462	3,05,462
05	DEDUCTION UNDER CHAPTER VIA	Deductions (u/s)		
		(a) 80C (Deduction in respect of life insurance premia, deferred annuity, contributions to provident fund, subscription to certain equity shares or debentures, etc.)	60,854	60,854
		(b) 80TTA (Deduction in respect of interest on deposits in savings account)	1,109	1,109
		Total deductions under chapter VI-A (sum of the items above) (As restricted to the amount claimed in the return)	61,963	61,963
06		Total income after deductions [6=(4-5)]	2,43,500	2,43,500
07	TAX DETAILS	Tax payable on total income	0	0
08		Rebate u/s 87A	0	0
09		Tax after rebate [9=(7-8)]	0	0
10		Health and education cess @4% on 9	0	0
11		Gross tax liability before tax relief (total tax and cess) [11=(9+10)]	0	0
12	TAX RELIEF	Relief u/s 89	0	0
13	TOTAL INCOME TAX LIABILITY	Balance tax after relief [13=(11-12)]	0	0

Intimation u/s 143(1)

Name : SANGITA PAL

PAN : ASUPP6160C

AY : 2023-24

Ack. No. : 555661790190723

DIN : CPC/2324/A1/366261570

Sl.No.	Particulars	Reporting Heads	Amount in ₹	
			As provided by Taxpayer	As Computed u/s 143(1)
14	INTEREST AND FEE PAYABLE	(a) Interest u/s 234A	0	0
		(b) Interest u/s 234B	0	0
		(c) Interest u/s 234C	0	0
		(d) Fee u/s 234F	0	0
		(e) Total interest and fee payable [14e={14(a)+14(b)+14(c)+14(d)}]	0	0
15		Aggregate income tax liability [15=(13+14e)]	0	0
16	TAXES PAID	(a) Advance tax	0	0
		(b) TDS	6,337	6,337
		(c) TCS	0	0
		(d) Self assessment tax	0	0
		(e) Total tax paid [16e={16(a)+16(b)+16(c)+16(d)}]	6,337	6,337
17	REFUND	Refund Amount [17=(16e-15)]	6,340	6,337
18		Delay attributable to taxpayer (in months)	N/A	0
19		Interest u/s 244A on refund (on item 17 above after considering item 18)	N/A	158
20		Total income tax refund [20=(17+19)]	N/A	6,495
21	Less: Amount of refund adjusted against demand(s) of earlier AY(s) and interest payable u/s 220(2) after following due process under section 245(1). (Please refer to the annexure - Outstanding demand details)			0
22	Net Amount Refundable [22=(20-21)]			6,500

Intimation u/s 143(1)



आयकर केन्द्र
CENTRALIZED PROCESSING CENTER
INCOME TAX DEPARTMENT

Name : SANGITA PAL

PAN : ASUPP6160C

AY : 2023-24

Ack. No. : 555661790190723

DIN : CPC/2324/A1/366261570

** Refund Notes:

1. The refund determined as per this intimation order, and the interest u/s 244A thereon will be on hold as per section 139AA of Income Tax Act, 1961 read with rule 114AAA, incase your PAN is marked as inoperative due to not being linked to Aadhaar. Kindly link your Aadhaar with PAN under the following path:
<https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar>
Disclaimer: The above is not applicable if you have already linked your PAN to Aadhaar.
2. The refund determined in this intimation, along with interest u/s 244A is subject to adjustment of outstanding demand(s), if any, u/s 245(1) and withholding of the balance refund, if any, as per the provisions of section 245(2), if applicable.
3. For the purpose of credit of refund to your bank account, it is necessary that you have validated and then nominated your bank account on e-Filing portal. You can validate and then nominate your bank account in the "My Profile" section after log-in to the e-Filing portal (www.incometax.gov.in).
4. The credit of the refund amount to your nominated bank account will be effected through the refund banker, i.e. the State Bank of India (SBI). It normally takes not more than 15 days to get the refund amount credited to your nominated bank account.
5. You may check the status of your refund at the "Know Your Refund Status" functionality on the e-Filing portal (www.incometax.gov.in). It will also display the Unique Transaction Reference Number (UTRN) of your refund transaction initiated by the refund banker. You can also contact the refund banker (SBI) Helpline number 18004259760 to know the status of your refund.
6. In case the refund is not credited to your nominated bank account within 15 days, we advise you to contact your bank branch along with the above UTRN to know the precise reason for the same. There may be multiple reasons for the failure to credit of refund amount to your nominated bank account such as account does not exist, credit freeze in account, invalid account number, blocked account, dormant account, and so on. Please take necessary steps to resolve the issue as advised by your bank branch.
7. Please submit a request for a re-issue of refund on the e-Filing portal only after the issue with your nominated bank account is resolved.
8. If you consider that any part of this intimation requires to be rectified, you may request for a rectification u/s 154 of the Income Tax Act 1961.

To file a Rectification Request

